

I/221450/2024

उत्तराखण्ड शासन
ग्रामीण निर्माण अनुभाग
संख्या- 368 /XII-3/2024/(E 20461)
देहरादून दिनांक 30 जून, 2024

विज्ञप्ति/पदोन्नति

श्री विभु विश्वमित्र रावत, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग कोनियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 वेतन मैट्रिक्स रू0 131100-216600 (लेबल-13क), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल नैनीताल के पद पर पदोन्नत करते हुये तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


Signed by Mayawati
Dhakriyal
Date: 30-06-2024 16:55:38
(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्या- 368 /XII-3/2024/(E 20461) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, महालेखाकार भवन कौलागढ़ उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निजो सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय (लिथो प्रेस), उत्तराखण्ड रूडकी जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।